

Date: July 11, 2018

To,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Scrip Code: BSE

ISIN: INE118H01025

Ref: Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Sub: Intimation on publication of public advertisement post closure of Buyback

Dear Sirs,

With reference to above captioned subject, please find enclosed newspaper advertisements published in following newspapers on July 11, 2018: Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Navshakti (Marathi) intimating about post Buyback public advertisement.

The same will also be available on the website of the Company: www.bseindia.com.

This is for your information and record.

Thanking you, Yours faithfully, For BSE Limited



Prajakta Powle

Company Secretary and Compliance Officer

Encl: a/a



FINANCIAL EXPRESS

***UNITED BREWERIES LIMITED**

Registered Office: UB Tower, UB City, # 24, Vittal Mallya Road, Bangalore - 560 001. Tel: (91-80) 39855000, 22272807, 22293333, Fax: (91-80) 22211964 CIN: L36999KA1999PLC025195

Website: www.unitedbreweries.com Email: ublinvestor@ubmail.com

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE

The following share certificates of the Company have been reported lost/misplaced and the holders of the said share certificates have requested the Company for issue of Duplicate Share Certificates.

Notice is hereby given that the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to the below mentioned persons unless a valid objection is received by the Company within 15 days from the date of publication of this notice

SI.	Folio	Certificate	No. of	Distinctive No.		Name of the Shareholder	
No.	No.	No.	Shares	From	То	1	
1	UB046978	103430	400	1152091	1152490	NAJU M LAKDAVALA (DECEASED) Keki Minoo Lakdwala - Legal Heir	
2	UB001853	108602 121208	140 15	3539531 216113108	3539670 216113122	KRISHNASWAMY R	
3	UB102362	102855 120323	240 30	944201 216065574	944440 216065603	HARENDRA SHANTILAL SUTARIA INDUBEN HARENDRABHAI SUTARIA	
4	UB078005	111677	380	5296801	5297180	SIVARAMAN N	

Any person(s) having objections to the issue of the duplicate share certificates should lodge his/her/their objection with all supporting documents with the Company at its Registered Office within 15 days from the appearance of this notice failing which the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to the persons mentioned above and thereafter no objection to the issue of duplicate share Certificates will be entertained from any person(s).

For UNITED BREWERIES LIMITED

Place: Bengaluru Date: 10.07.2018

GOVIND IYENGAR Senior Vice President - Legal & Company Secretary



BSE LIMITED

Registered Office: 25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001, India. Tel. No.: +91 22 2272 1233 / 34, Fax No.: +91 22 2272 1003 E-mail: bse.shareholders@bseindia.com | Website: www.bseindia.com | Company Secretary & Compliance Officer: Smt. Prajakta Powle

POST BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF BSE LIMITED

This post-Buyback public advertisement is being made in accordance with Regulation 19(7) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback (defined hereinafter).

This post-Buyback public advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement dated January 22, 2018 ("Public Announcement"), issued in connection with the Buyback. Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

THE BUYBACK

- 1.1 Pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70 and all other applicable provisions, of the Companies Act, 2013, as amended ("Act") and applicable rules thereunder, the provisions of the Buyback Regulations, and Article 23 of the Articles of Association of BSE Limited (the "Company"), and pursuant to the resolutions passed by the Board of Directors of the Company (the Board of Directors of the Company are hereinafter referred to as the "Board" or the "Board of Directors") at their meeting held on January 15, 2018 (the "Board Meeting"), the Board approved the Buyback of the Company's fully paid-up equity shares of the face value of ₹ 2 (Rupees Two Only) (the "Equity Shares") each from its shareholders/ beneficial owners, from the open market through stock exchange mechanism i.e., using the electronic trading facilities of the National Stock Exchange of India Limited ("Stock Exchange"), where the Equity Shares are listed, for a total amount not exceeding ₹ 166.00 crore (Rupees One Hundred Sixty Six Crore only) (the "Maximum Buyback Size"), and at a price not exceeding ₹ 1,100/- (Rupees One Thousand One Hundred Only) per Equity Share (the "Maximum Buyback Price"), payable in cash (the process being referred hereinafter as "Buyback"). The Maximum Buyback Size and Maximum Buyback Price do not include brokerage costs, fees, turnover charges, taxes such as securities transaction tax and goods and service tax (if any), stamp duty and other transaction charges (collectively referred to as "Transaction Costs").
- The Buyback commenced on February 1, 2018 and closed on July 9, 2018. Till the date of closure of Buyback, the Company has utilized 99.9999% of Maximum Buyback Size (excluding Transaction Costs) authorised for the Buyback with a balance of ₹934.39.
- 1.3 The Company decided to close the Buyback with effect from July 9, 2018. Intimation for closure of the Buyback was issued to the Stock Exchange on July 9, 2018.
- 1.4 The total number of shares bought back under the Buyback is 20,19,170 Equity Shares.
- 2. DETAILS OF THE BUYBACK
- The Company bought back an aggregate of 20,19,170 Equity Shares, utilizing a total of ₹ 1,65,99,99,065.61 (Rupees One Hundred Sixty Five Crore Ninety Nine Lakh Ninety Nine Thousand Sixty Five and Sixty One paise only) (excluding Transaction Costs), which represents 99.9999% of the Maximum Buyback Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchange. The highest price at which the Equity Shares were bought back was ₹874.82 per Equity Share while the lowest price was ₹733.93 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of ₹ 822.12 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Edelweiss Securities Limited ("Company's Broker") and exclude Transaction Costs.
- 2.2 The pay-out formalities shall be completed as per the normal settlement calendar of the Stock Exchange. The Company has extinguished 18,57,600 Equity Shares till date and the Company is in the process of extinguishing the remaining 1,61,570 Equity Shares bought back.
- 2.3 All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchange. As the Buyback was done from the open market through the Stock Exchange, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares was bought in the Buyback is not known.

CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

The capital structure of the Company as on the date of the Public Announcement and as on July 9, 2018 (post completion of the Buyback) is set forth below:

Particulars	As on the date of the Public Announcement	Post completion of the Buyback* as on July 9, 2018
Authorised share capital	₹ 300,00,00,000 (150,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2/- each)	₹ 300,00,00,000 (150,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2/- each)
Issued share capital: (7,80,000 equity shares of the face value of ₹ 2/- each have been kept in abeyance on account of various regulatory reasons)	₹ 10,91,76,344 (5,45,88,172 Equity Shares of Rs. 2/- each)	₹10,51,38,004 (5,25,69,002 Equity Shares of Rs. 2/- each)
Subscribed and fully paid-up share capital	₹ 10,76,16,344 (5,38,08,172 Equity Shares of Rs. 2/- each)	₹10,35,78,004 (5,17,89,002 Equity Shares of Rs. 2/- each)


The Company is in the process of extinguishing the balance of 1,61,750 Equity Shares out of the total of 20,19,170 Equity Shares " bought back. The post-Buyback share capital is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the Company.

3.2 The shareholding pattern of the Company pre-Buyback as on January 12, 2018 and post-Buyback as on July 9, 2018 is set forth below:

	Pre-Buyl	back	Post completion of the Buyback		
Shareholder	No. of Equity Shares	% of Equity Shares	No. of Equity Shares	% of Equity Shares	
(A) Promoter & Promoter Group	0	0.00	0	0.00	
(B) Public	3,30,61,393	61.44		1	
(C1) Shares underlying DRs	0	0.00	5,17,89,002		
(C2) Shares held by Employee Trust	0	0.00			
(C3) Trading Members and Associate of Trading Members	2,07,46,779	38.56		100.00	
(C) Non-Promoter-Non-Public (C=C1+C2+C3)	2,07,46,779	38.56)	
Grand Total (A+B+C)	5,38,08,172	100.00	5,17,89,002	100.00	

The Company is in the process of extinguishing the balance of 1,61,750 Equity Shares out of the total of 20,19,170 Equity Shares bought back. The post-Buyback shareholding pattern is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the

MANAGER TO THE BUYBACK



Edelweiss Financial Services Limited Edelweiss House, Off. C.S.T. Road, Kalina, Mumbai - 400 098 Tel: +91 22 4009 4400. Fax: +91 22 4086 3610 E-mail: bse.buyback2018@edelweissfin.com

Contact Person: Siddharth Shah Investor Grievance E-mail: customerservice.mb@edelweissfin.com

Website: www.edelweissfin.com SEBI Registration Number: INM0000010650

Corporate Identity Number: L99999MH1995PLC094641

For further details please refer to the Company's website (www.bseindia.com) and the website of the Stock Exchange (www.nseindia.com).

DIRECTORS' RESPONSIBILITY As per Regulation 19(1)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this post-Buyback public advertisement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of **BSE Limited**

Ashishkumar Chauhan Managing Director & CEO DIN-00898469

Prajakta Powle Company Secretary & Compliance Officer Membership No-A20135

Date: July 10, 2018 Place: Mumbai

Rajeshree Sabnavis

Shareholder Director

DIN-06731853

Adfactors 158



BANK OF MAHARASHTRA Head Office - Lokmangal, 1501, Shivaji Nagar, Pune - 411 005

Request for Proposal (RFP)

AX1/IT/RFP 132018/2018-19/E-TDS Bank of Maharashtra invites proposal for Supply, Customization, Installation Integration and Maintenance of e-TDS Software with end to end solution for Centralization of TDS. The details and tender document will be available from 11th July 2018 in the Tenders Section on Bank's Website https://www.bankofmaharashtra.in

Bank reserves the right to cancel or reschedule the RFP process without assigning any reason. Deputy General Manager, IT (PMO & MIS)



NOTICE INVITING TENDER E-PROCUREMENT

Tenders are invited from reputed Manufacturers for supply of the following

Purchase Tender No.: (1) WE-55 (2) WE-56 (3) WE-57 (4) WE-58 (5) WE-59 & (4) WE-60

*Brief description of item : (1) Explosives & Accessories (e-reverse Auction) - 7 items. (2) Electrical Cables (Assorted Sizes). (3) Cement-1014 MT, (4) DC Rectifier Transformer- 1 Set, (5) LT Panel & (6) HT panel Tendering Authority Address: Dy.G.M. (Materials), MOIL LIMITED, "MOIL BHAWAN", 1A, KATOL ROAD, NAGPUR - 440 013, Ph.No. PBX: 0712-2806100, Fax No.0712-2592360

For details of Tender Document & Schedule of Tender, visit website: http://www.moil.nic.in and www.eprocure.gov.in

For participation in e-tendering, visit website (MSTC):

www.mstcecommerce.com/eprochome/moil For detailed specifications & instructions, refer tender document.

Any further updates/corrigendum will only be uploaded in the above mentioned websites and will not be published in newspapers. Bidders are requested to visit websites regularly to keep themselves updated.

Dy.G.M. (Materials)

MOIL - Adding Strength to Steel

Eminence tag for Jio Institute conditional: HRD ministry

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, July 10

FACING CRITICISM OVER the selection of the yet-to-beestablished Jio Institute by Reliance Foundation as an "Institution of Eminence", the HRD ministry on Tuesday clarified that the tag was conditional and it would get only a letter of intent for now.

"Right now they will not get the IoE tag, they will just get a letter of intent. If they are able to establish themselves in three years and meet the

The selection of the yet-to-be-established Jio Institute as one of the six 'Institutions of Eminence' drew sharp criticism from various quarters

expectations of the expert committee, then they will get the IoE status. The expert panel will have the authority to withdraw the tag if the institution is not found to be performing up to the mark," HRD secretary R Subramaniam told reporters.

The government on Monday granted "Institution of Eminence" (IoE) status to IIT-Delhi, IIT-Bombay and the Bengaluru-based Indian Institute of Science (IISc) in the public sector, and Manipal Academy of Higher Education, BITS Pilani and Jio Institute in the private sector. The selection of the yet-to-be-established Jio Institute as one of the six "Institutions of Eminence" drew sharp criticism from various quarters with many questioning the process of selection and the motive behind it.



GOVERNMENT OF TAMIL NADU / WATER RESOURCES DEPARTMENT PALAR BASIN CIRCLE, CHEPAUK, CHENNAI - 5. FORM OF CONTRACT: LUMPSUM - ITEM RATE CONTRACT TENDER NOTICE (TWO COVER SYSTEM)

TENDER NOTICE NO. 2 PBC/ 2018-19/ Dt.: 10.07.2018

For and on behalf of the Governor of Tamilnadu, the Special Chief Engineer, WRD., Palar Basin Circle, Chennai - 5 invites tenders from eligible tenderers for the work of "Eco Restoration and Protection of Peerkankaranai Tank in Tambaram Taluk of Kancheepuram District" at his office upto 3.00 P.M on 14.08.2018 in sealed cover. The tender will be opened at 3.30 P.M at his chamber on the same day.

Other informations as details of Work, Value, EMD, Cost of tender schedule, etc., will be available in the Government website "www.tenders.tn.gov.in" Any Corrections or Modifications will be published on web site only. Special Chief Engineer, WRD.,

DIPR/2659/Tender/2018

Palar Basin Circle, Chennai-5.

MIRAE ASSE Mutual Fund

NOTICE CUM ADDENDUM NO. AD/19/2018

NOTICE is hereby given that Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd., Trustees to Mirae Asset Mutual Fund (MAMF) has approved declaration of dividend under Mirae Asset Savings Fund (an open ended low duration debt scheme investing in instruments with Macaulay duration# of the portfolio between 6 months and 12 months) (#Refer page no. 20 of SID) as under

Scheme / Plan / Option	Quantum of Dividend** (₹ per unit)	NAV of Dividend option as on July 9, 2018 (per unit)	Record Date	Face Value (Per Unit)
Mirae Asset Savings Fund - Regular Plan - Quarterly Dividend Option.	15.65	1031.7530	Monday July 16. ₹ 1000.0	
Mirae Asset Savings Fund - Direct Plan - Quarterly Dividend Option.	16.00	1055.2861	July 16, 2018*	X 1000.00
* or the immediately fellowing Pusiness De	y if that day in	not a Business day		10

or the immediately following Business Day, if that day is not a Business day.

** subject to availability of distributable surplus as on the record date; and as reduced by applicable statutory levy, if any,

Pursuant to the payment of dividend, the NAV of the Dividend Option of the above mentioned Plan of the Scheme will fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Income distribution / Dividend will be paid to those Unitholders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Mutual Fund / statement of beneficial ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the Dividend Option of the aforesaid plan as on the record date. This notice-cum-addendum forms an integral part of SID / KIM of the above-mentioned Scheme of the Fund,

as amended from time to time. All the other terms and conditions of SID and KIM of the above-mentioned For and on behalf of the Board of Directors of MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (INDIA) PVT. LTD.

(Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

PLACE: MUMBAI **AUTHORISED SIGNATORY** DATE: July 10, 2018

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Global Investments (India) Pvt. Ltd.) Registered & Corporate Office: 606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. 1800 2090 777 (Toll free), ⊠ customercare@miraeasset.com (www.miraeassetmf.co.in CIN of AMC - U65993MH2006FTC165663

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



scheme will remain unchanged.



Haq, ek behtar zindagi ka.

NOTICE - DIVIDEND DECLARATION

UTI Fixed Income Interval Fund - Series II - Monthly Interval Plan - IV

Name of the Plan	Gross Dividend (₹)	Record Date	Face Value (per unit)	NAV as or 09.07.2018 (pe	
UTI Fixed Income	*100% of	Monday	₹10.00	Option	₹
Interval Fund - Series II - Monthly Interval Plan - IV (Div. sub option)	distributable surplus as on the Record Date	July 16, 2018		Retail Existing Plan Retail Direct Plan Institutional Existing Plan	10.0450 10.0435 10.0765

UTI Fixed Income Interval Fund - Series II - Quarterly Interval Plan - IV

Name of the Plan	Gross Dividend (₹)	Record Date	Face Value (per unit)	NAV as or 09.07.2018 (pe	
UTI Fixed Income Interval Fund -	*100% of distributable	Monday July 16,	₹10.00	Option	₹
Series II - Quarterly	surplus as on the Record Date	2018		Retail Existing Plan Retail Direct Plan	10.1604

*Distribution of above dividend are subject to the availability of distributable surplus as on record date. Dividend payment to the investor will be lower to the extent of Dividend Distribution Tax.

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend options of the schemes would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Such of the unitholders under the dividend option whose names appear in the register of unitholders as at the close of business hours on the record date fixed for each dividend distribution shall be entitled to receive the dividend so distributed. The reinvestment, if any, shall be treated as constructive payment of dividend to the unitholders as also constructive receipt of payment of the amount by the unitholders. No load will be charged on units allotted on reinvestment of dividend.

The Specified Transaction Period will be Monday July 16, 2018 & Tuesday July' 17, 2018 (Both the days inclusive)

Subscription for purchase of units/redemption of units/switch in/out under Retail Option and redemption of units/switch out under institutional option will be accepted only during the Specified Transaction Period. The applicable price for purchase/redemption of units will be based on ex-dividend NAV in case of dividend declaration during the Specified Transaction Period. As the units will be issued on ex-dividend basis, the unitholders for the units so issued will not be eligible for the past dividend.

Mumbai July 10, 2018

Toll Free No.: 1800 22 1230

Website: www.utimf.com

The time to invest now is through - UTI SIP

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051, Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-U65991MH2002GOI137867). For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/NISM certified UTI Mutual

Fund Independent Financial Advisor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form. UTI-SIP is only an investment approach applied to various equity, debt and balanced schemes of UTI Mutual Fund (UTI MF) and is not the name of a scheme / plan of UTI MF.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

RELIANCE Communications

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 18th July, 2018, inter alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for the guarter ended 30th June, 2018.

This intimation is also available on the website of the Company, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.rcom.co.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

For Reliance Communications Limited

Prakash Shenoy Company Secretary

Dated : July 10, 2018.

Place: Navi Mumbai

Registered Office:

Reliance Communications Limited

H Block, 1st Floor, Dhirubhai Ambani Knowledge City, Navi Mumbai - 400 710.

Tel: +91 22 30386286. Fax: +91 22 30376622

Website: www.rcom.co.in, CIN: L45309MH2004PLC147531

HIMADRI SPECIALITY CHEMICAL LTD.

CIN: L27106WB1987PLC042756, website: www.himadri.com

Notice for loss of shares Notice is hereby given that the following equity share certificate(s) of the Company has been reported as lost or misplaced and the holders thereof has applied to the Company

(Formerly Known as Himadri Chemicals & Industries Limited)

Regd. Off: 23A, Netaji Subhas Road, 8th Floor, Suite No. 15, Kolkata- 700 001

for the issue of duplicate certificate(s): Name of Shareholders Folio No. Certificate Distinctive No. shares /.Y. Katwa K007314 0005596 002442701 002442800 t. - A Sreenivasa Ashish K Agarwal 0010165 | 002899601 | 002899700 | 0013589 | 003242001 | 003242100 | 0034427 000943701 000943800 Bindu Vasakh Madhan M/05288 0007365 | 002619601 | 002619700 | 100 Ramilaben A Patel P003513 5607412 5607511 0047695 5607512 5607538 27 0047696

The public is hereby warned against purchasing or dealing with the above share certificates in any way and any person (s) who has any claim in respect of these shares, must lodge such claim with the Company at its Registered Office within 21 days from the date of this publication, failing which the Company will proceed to issue duplicate share after cancelling the original certificates.

Place: Kolkata Dated: 11 July, 2018 For Himadri Speciality Chemical Ltd B. L. Sharma- Secretary (FCS-8148)

P/05844 0016060 003489101 003489200 100

Gacı

Amit J Patel

Gujarat Alkalies and Chemicals Limited (An IS-ISO Certified Company) (Promoted by Govt. of Gujarat) REGD. OFFICE: P. O. PETROCHEMICALS - 391346, DIST. VADODARA, GUJARAT, INDIA.

the said shares on or before 15/10/2018.

Tel.: +91-265-2232681-2 Fax: +91-265-2231208 Website: www.gacl.com Email: cosec@gacl.co.in CIN: L24110GJ1973PLC002247

NOTICE

(for the attention of Equity Shareholders of the Company) Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended, from time to time (hereinafter referred to as The Rules, interalia, contain provisions for transfer of all shares in

respect of which dividend has not been paid or claimed by the

shareholders for seven consecutive years or more to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority. Pursuant to the Rules, the Company has sent letter dated 05/07/2018 by Registered Post to all the concerned shareholders who have not claimed/encashed dividend for the Financial Year 2010-11 and all subsequent dividends declared by the Company and whose shares are liable to be transferred during the Financial Year 2018-19 to IEPF Authority, for taking appropriate actions to claim unpaid dividend on

The Company has also uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Authority on its website at the

http://www.gacl.com/public_html/new/pdf/IEPFSHARES_2010-11.pdf The details covers such shares in respect of which the dividend has not been claimed by the concerned shareholders for seven consecutive years. The said shares correspond to the unclaimed dividend for the Financial Year 2010-11.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 15/10/2018 or such other date as may be specified, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Act and Rules, transfer the shares to the IEPF Authority by the due date as per procedure stipulated in the Rules. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPF Authority pursuant to the said Rules.

Shareholders may note that, both the unclaimed dividend and the shares, transferred to IEPF Authority can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact to the Company or to the Company's Registrar and Transfer Agent - Link Intime India Private Limited, B-102 & 103. Shangrilla Complex, First Floor, Opp. HDFC Bank, Near Radhakrishna Char Rasta, Akota, Vadodara- 390 020, phone no. (0265) 2356573 / 2356794, email : vadodara@linkintime.co.in or iepf.shares@linkintime.co.in.

For Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd.

(Sanjay S. Bhatt) Company Secretary &

Place: Vadodara

Date: 10.07.2018

General Manager (Legal & CC)

बच्चों को शांत रखने के लिए बचाव दल ने दी थी हल्की बेहोशी की दवा

मे साई (थाईलैंड), 10 जुलाई (एएफपी)।

मंगलवार को बचाव अभियान में लगे एक चिकित्सक और थाई नौसेना के तीन गोताखोरों के निकलने के बाद यह अभियान पूरी तरह कामयाब होकर खत्म हुआ। यह जानकारी बचाव दल के प्रमुख नारोंगसाक ओसोतानाकोर्न ने दी।

थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा ने मंगलवार को खुलासा किया कि इन किशोरों को कुछ दवा दी गई ताकि वे शांत रह सकें। उन्होंने कहा, 'यह मामूली बेहोशी वाली दवा थी ताकि उन्हें उद्विग्नता से बचाया जा सके'। ये किशोर फुटबाल का अभ्यास करने के बाद 23 जून को उत्तरी थाईलैंड के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित थाम लुआंग गुफा में चले गये थे। गुफा में अंदर जाने के बाद भारी बारिश होने से बाढ़ का पानी गुफा के भीतर घुस गया और गुफा से निकलने का रास्ता कीचड़ और फिसलन भरा होने के कारण बहुत खतरनाक हो गया।

बचाए गए सभी किशोर कमजोर होने के बावजूद काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। इन किशोरों में से अधिकतर को तैरना नहीं आता था और किसी के पास गोताखोरी का अनुभव नहीं था। लिहाजा बचावकर्ताओं ने उन्हें मास्क पहनना और आक्सीजन सिलेंडर की मदद से पानी के भीतर सांस लेने का प्रशिक्षण दिया। थाई नेवी सील के एक पूर्व गोताखोर की गुफा में आक्सीजन की कमी के चलते शुक्रवार को हुई मौत के कारण बचाव मार्ग के खतरों को लेकर आशंकाएं बहुत बढ़ गई थीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे पहली ऐसी

पाकिस्तान की मुख्य पार्टियों ने स्वीकार किया है

कि आतंकवाद और कट्टरपंथ ने उनके देश को दुनिया

में अलग-थलग कर दिया है। उन्होंने अपने-अपने

चुनाव घोषणापत्र में वादा किया है कि 25 जुलाई को

होने वाले आम चुनाव के बाद सत्ता में आने पर वे इस

पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, पाकिस्तान पीपुल्स

पार्टी (पीपीपी) और पाकिस्तान मुसलिम लीग- नवाज

(पीएमएल-एन) ने आतंकवाद, कट्टरपंथ और चरमपंथ

को देश के लिए अभिशाप बताया है। उन्होंने मुसलिम

बहुल इस देश में हजारों मदरसों में शिक्षा व्यवस्था में

सुधार लाने का भी वादा किया। पाकिस्तान पर

अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान इस बात के लिए

दबाव बना रहे हैं कि वह अपने यहां संचालित होने वाले

आतंकी संगठनों को संरक्षण देना बंद करे। क्रिकेटर से

नेता बने इमरान खान नीत पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ

ने सोमवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया।

पार्टी ने इसमें आतंकवाद की एक बुराई के तौर पर और

पाकिस्तान व देश के अवाम पर इसके विनाशकारी

प्रभावों की पहचान की है। इसने कहा है कि आतंकवाद

से न सिर्फ पाकिस्तानी नागरिकों की बड़े पैमाने पर जानें

जा रही हैं बल्कि कभी सहिष्णु रहा समाज भी

भावना बहाल करने और पाकिस्तान के सभी नागरिकों

के बीच स्वीकार्यता के प्रति प्रतिबद्ध है। पार्टी ने यह भी

कहा कि वह पाकिस्तानी सरजमीं या उसके सशस्त्र बलों

सहित अवाम को आतंकवाद को बढावा देने या किसी

अन्य देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं

देगी। पीपीपी ने पिछले हफ्ते जारी अपने चुनावी

घोषणापत्र में कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ इसकी

कुबार्नियों के बावजूद पाकिस्तान वैश्विक समुदाय में

अलग-थलग बना हुआ है और सकरात्मक छवि नहीं

अफगान सुरक्षा बलों के वाहन के पास मंगलवार

को एक फिदाई हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस

हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि देश को हिला देने वाले इस

हमले में मारे गए लोगों में से ज्यादातर आम नागरिक

हैं। प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता अताउल्ला खोग्यानी ने

बताया कि जलालाबाद में हुए इस विस्फोट में पांच

लोग घायल हुए हैं और पास के एक पेट्रोल स्टेशन

को भी आग लगा दी गई है। स्वास्थ्य निदेशक

जलालाबाद, 10 जुलाई (एएफपी)।

शरीफ, मरियम को

विदेश यात्रा प्रतिबंध

सूची में डाला

पाकिस्तान सरकार ने अपदस्थ

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी

बेटी मरियम नवाज के नामों को

विदेश यात्रा प्रतिबंध सूची

(ईसीएल) में डाल दिया है। वे दीनों

शुक्रवार को स्वदेश लौटने वाले हैं।

एवेनफील्ड संपत्ति भ्रष्टाचार मामले

में इस्लामाबाद की जवाबदेही

अदालत ने कुछ ही दिन पहले

शरीफ और मरियम को दोषी ठहराते

हुए उन्हें क्रमश : 10 साल और सात

साल की कैद की सजा सुनाई थी।

इस सूची में जिन लोगों का नाम

डाल दिया जाता है, वे पाकिस्तान से

आजकल लंदन में हैं। शरीफ वहां

शरीफ और मरियम दोनों ही

बाहर नहीं जा सकते हैं।

कैंसर से पीड़ित हैं।

लाहौर, 10 जुलाई (भाषा)।

इसमें कहा गया है कि पार्टी का रूख सहिष्णुता की

असहिष्णुता, डर और नफरत में तब्दील हो रहा है।

इस्लामाबाद, 10 जुलाई (भाषा)।

बुराई के खिलाफ लडेंगे।

एलोन मस्क की ओर से ट्वीट की गई यह तस्वीर युवा फुटबाल टीम के सदस्यों को बचाने के प्रयासों को दर्शाती है।

पाक में चुनावी घोषणा पत्र में आतंकवाद,

कट्टरपंथ से लड़ने का वादा किया



रूस जाकर फाइनल का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे गुफा से बाहर आए बच्चे

ये खिलाड़ी शायद विश्व कप फाइनल का लुत्फ रूस जाकर नहीं उढा पाएंगे क्योंकि चिकित्सकों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया है। ब्राजील के दिग्गज खिलाडी रोनाल्डो, इंग्लैंड के जोन स्टोन्स और अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी ने किशोर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। फीफा के अध्यक्ष जियानी इनफैनटिनों ने भी बच्चों की फुटबॉल टीम को रूस में विश्व कप का फाइनल मैच देखने के लिए आमंत्रित किया था। चिकित्सकों ने उनके प्रस्ताव को यह कहते हुए मना कर दिया कि बच्चे अच्छी स्थिति में हैं लेकिन अभी उन्हें एक सप्ताह तक अस्पताल में रहना होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के थोंगचाई लर्टविलएरतनापोंग ने कहा, वे अभी कही नहीं जा सकते हैं। उन्हें अस्पताल में रहना होगा।

विश्व नेता हैं जिन्होंने इन किशोरों को बचाने में मिली सफलता पर प्रसन्नता जताई। मे ने ट्वीट कर कहा, 'थाईलैंड में गुफा में फंसे हुए लोगों का सफलतापूर्वक बचाव किए जाने के कारण प्रसन्न हुं। विश्व देख रहा था और इसमें शामिल सभी लोगों को वह सलाम कर रहा है'। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, 'थाईलैंड में खतरनाक गुफा से 12 किशोरों और उनके प्रशिक्षक को सफलतापूर्वक बचाने के लिए अमेरिका की तरफ से थाई नेवी सील और सभी को

बधाई'। इंग्लैंड के फुटबाल क्लब मैनचेस्टर यूनाटेड ने

वाइल्ड बोर्स व बचाव अभियान में शामिल सभी लोगों

चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं

पर हो सकते हैं हमले

पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एजंसी ने इमरान खान

समेत कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को उनपर

आतंकवादी हमले हो सकने को लेकर चेतावनी दी है।

एजंसी ने कहा है कि प्रचार रैली के दौरान आतंकवादी इन

नेताओं को निशाना बना सकते हैं । राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी

अधिकरण (एनएसीटीए) ने कहा था कि उसने संघीय और

प्रांतीय गृह मंत्रालयों के साथ ही कानून-प्रवर्तन एजंसियों

को 12 अलर्ट भेजे हैं। डॉन समाचारपत्र ने एजंसी के हवाले

से कहा, 'पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) और

पाकिस्तान मुसलिम लीग-नवाज (पीएमएल - एन) समेत

राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व और छह हस्तियों को चुनाव

के दौरान निशाना बनाया जा सकता है। ' एनएसीटीए के

निदेशक ओबैद फारुक ने कहा, 'इन छह लोगों में

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान,

आवामी नेशनल पार्टी के नेता असफदयार वली और अमीर

हैदर होती, कौमी वतन पार्टी के अध्यक्ष अफताब शेरपाउ,

जिमयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल नेता अक्रम खान

दुर्रानी और हाफिज सइद के बेटे तलहा सइद का नाम

बना पा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की अगुआई

वाली पार्टी पीपीपी ने कहा है कि सत्ता में लौटने पर वह

आतंकवादियों के कब्जे से मुक्त कराए गए क्षेत्र को

अराजक स्थानों में तब्दील नहीं होने देने को सुनिश्चित

नजीबुल्ला कामावाल ने मरने वालों के आंकड़े की

पुष्टि करते हुए कहा कि अस्पताल लाए गए कुछ

देखा कि आग का एक बड़ा सा गोला लोगों को दूर

फेंक रहा था। लोग जल रहे थे।' तुलू न्यूज ने

ऑनलाइन एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें कथित

रूप से दिख रहा है कि घटनास्थल पर कई गाड़ियां

और दुकानें खाक हो गई हैं। इस्लामिक स्टेट समूह

ने अपनी प्रोपेगंडा एजंसी अमाक के जरिए हमले की

घटना के प्रत्यक्षदर्शी इस्मतुल्ला ने कहा, 'मैंने

शामिल हैं।'

करेगी।

अफगान में आत्मघाती हमला, 12 की मौत

इस्लामाबाद, 10 जुलाई (भाषा)।

न्योता दिया। इनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही है। विशेषज्ञों ने आगाह किया

को इंग्लैंड आने और क्लब का दौरा करने करने का है कि दूषित पानी अथवा पक्षियों या चमगादड़ों के मल से संक्रमित होने वाले पानी के कारण फंसे रहे लोगों को संक्रमण हो सकता है।

BSE LIMITED

Registered Office: 25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001, India. Tel. No.: +91 22 2272 1233 / 34, Fax No.: +91 22 2272 1003 E-mail: bse.shareholders@bseindia.com | Website: www.bseindia.com | Company Secretary & Compliance Officer: Smt. Prajakta Powle

POST BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF BSE LIMITED

This post-Buyback public advertisement is being made in accordance with Regulation 19(7) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback (defined hereinafter).

This post-Buyback public advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement dated January 22, 2018 ("Public Announcement"), issued in connection with the Buyback. Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

- 1.1 Pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70 and all other applicable provisions, of the Companies Act, 2013, as amended ("Act") and applicable rules thereunder, the provisions of the Buyback Regulations, and Article 23 of the Articles of Association of BSE Limited (the "Company"), and pursuant to the resolutions passed by the Board of Directors of the Company (the Board of Directors of the Company are hereinafter referred to as the "Board" or the "Board of Directors") at their meeting held on January 15, 2018 (the "Board Meeting"), the Board approved the Buyback of the Company's fully paid-up equity shares of the face value of ₹ 2 (Rupees Two Only) (the "Equity Shares") each from its shareholders/ beneficial owners, from the open market through stock exchange mechanism i.e., using the electronic trading facilities of the National Stock Exchange of India Limited ("Stock Exchange"), where the Equity Shares are listed, for a total amount not exceeding ₹ 166.00 crore (Rupees One Hundred Sixty Six Crore only) (the "Maximum Buyback Size"), and at a price not exceeding ₹ 1,100/- (Rupees One Thousand One Hundred Only) per Equity Share (the "Maximum Buyback Price"), payable in cash (the process being referred hereinafter as "Buyback"). The Maximum Buyback Size and Maximum Buyback Price do not include brokerage costs, fees, turnover charges, taxes such as securities transaction tax and goods and service tax (if any), stamp duty and other transaction charges (collectively referred to as "Transaction Costs").
 - The Buyback commenced on February 1, 2018 and closed on July 9, 2018. Till the date of closure of Buyback, the Company has utilized 99.999% of Maximum Buyback Size (excluding Transaction Costs) authorised for the Buyback with a balance of
- 1.3 The Company decided to close the Buyback with effect from July 9, 2018. Intimation for closure of the Buyback was issued to the Stock Exchange on July 9, 2018.
- 1.4 The total number of shares bought back under the Buyback is 20,19,170 Equity Shares.
- 2. DETAILS OF THE BUYBACK
- The Company bought back an aggregate of 20,19,170 Equity Shares, utilizing a total of ₹ 1,65,99,99,065.61 (Rupees One Hundred Sixty Five Crore Ninety Nine Lakh Ninety Nine Thousand Sixty Five and Sixty One paise only) (excluding Transaction Costs), which represents 99.9999% of the Maximum Buyback Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchange. The highest price at which the Equity Shares were bought back was ₹874.82 per Equity Share while the lowest price was ₹733.93 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of ₹ 822.12 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Edelweiss Securities Limited ("Company's Broker") and exclude Transaction Costs. 2.2 The pay-out formalities shall be completed as per the normal settlement calendar of the Stock Exchange. The Company has
- extinguished 18,57,600 Equity Shares till date and the Company is in the process of extinguishing the remaining 1,61,570 Equity Shares bought back
- 2.3 All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchange. As the Buyback was done from the open market through the Stock Exchange, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total

Equity Shares was bought in the Buyback is not known. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

The capital structure of the Company as on the date of the Public Announcement and as on July 9, 2018 (post completion of the Buyback) is set forth below:

Particulars	As on the date of the Public Announcement	Post completion of the Buyback* as on July 9, 2018
Authorised share capital	₹ 300,00,00,000 (150,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2/- each)	₹ 300,00,00,000 (150,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2/- each)
Issued share capital: (7,80,000 equity shares of the face value of ₹ 2/- each have been kept in abeyance on account of various regulatory reasons)	₹ 10,91,76,344 (5,45,88,172 Equity Shares of Rs. 2/- each)	₹10,51,38,004 (5,25,69,002 Equity Shares of Rs. 2/- each)
Subscribed and fully paid-up share capital	₹ 10,76,16,344 (5,38,08,172 Equity Shares of Rs. 2/- each)	₹ 10,35,78,004 (5,17,89,002 Equity Shares of Rs. 2/- each)

*The Company is in the process of extinguishing the balance of 1,61,750 Equity Shares out of the total of 20,19,170 Equity Shares bought back. The post-Buyback share capital is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the

3.2 The shareholding pattern of the Company pre-Buyback as on January 12, 2018 and post-Buyback as on July 9, 2018 is set

	Pre-Buyl	back	Post completion	of the Buyback
Shareholder	No. of Equity Shares	% of Equity Shares	No. of Equity Shares	% of Equity Shares
(A) Promoter & Promoter Group	0	0.00	0	0.00
(B) Public	3,30,61,393	61.44		\
(C1) Shares underlying DRs	0	0.00		1)
(C2) Shares held by Employee Trust	0	0.00		(
(C3) Trading Members and Associate of Trading Members	2,07,46,779	38.56	5,17,89,002	100.00
(C) Non-Promoter-Non-Public (C=C1+C2+C3)	2,07,46,779	38.56]
Grand Total (A+B+C)	5,38,08,172	100.00	5,17,89,002	100.00

The Company is in the process of extinguishing the balance of 1,61,750 Equity Shares out of the total of 20,19,170 Equity Shares bought back. The post-Buyback shareholding pattern is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the

4. MANAGER TO THE BUYBACK

Edelweiss Edelweiss Financial Services Limited

Edelweiss House, Off, C.S.T. Road, Kalina, Mumbai - 400 098

Tel: +91 22 4009 4400, Fax: +91 22 4086 3610 E-mail: bse.buyback2018@edelweissfin.com

Contact Person: Siddharth Shah

Investor Grievance E-mail: customerservice.mb@edelweissfin.com Website: www.edelweissfin.com

SEBI Registration Number: INM0000010650 Corporate Identity Number: L99999MH1995PLC094641

For further details please refer to the Company's website (www.bseindia.com) and the website of the Stock Exchange (www.nseindia.com).

DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 19(1)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this post-Buyback public advertisement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of **BSE Limited**

Rajeshree Sabnavis Shareholder Director

Ashishkumar Chauhan Managing Director & CEO

Prajakta Powle Company Secretary & Compliance Officer Membership No-A20135

Date: July 10, 2018 Place: Mumbai

30 सेकंड में उड़ाया सामान समय में चार संदिग्ध लोगों ने 27 अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हजार डॉलर के सामान पर हाथ एपल स्टोर से 30 सेकंड से कम साफ कर दिया।

GOOD YEAR

गुडईयर इंडिया लिमिटेड

(सी. आइ. एन.: L25111HR1961PLC008578) पंजीकृत कार्यालयः मधुरा रोड, बल्लभगढ़ (ज़िला फरीदाबाद), हरियाणा-121 004, इंडिया। फोन: 0129-6611000, फैक्स: 0129-2305310 कॉरपोरेट कार्यालयः प्रथम तल, ए. बी. डबल्यू एलिगेन्स टावर, प्लॉट नं.–८, कमर्शियल सेन्टर, जसोला, नई दिल्ली–110 025, इंडिया।

ई—मेल.: goodyearindia_investorcell@goodyear.com, वेबसाईट: www.goodyear.co.in

57[®] आम वार्षिक बैठक, रिमोट ई—वोटिंग और रजिस्टर बंद करने संबंधी सूचना

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि गुडईयर इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 57वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 8 अगस्त, 2018, प्रात: 11:00 बजे द ललित के वाईब होटल, 12/7, मधुरा रोड, (टोल प्लाजा के पास), फरीदाबाद-121003, हरियाणा, इंडिया में आयोजित किया जायेगा जिसमें आम वार्षिक बैठक की सूचना, दिनांक जून 27, 2018 में उल्लेखित साधारण तथा विशेष बिजनेस पर विचार-विमर्श किया जायेगा । आम वार्षिक बैठक और इससे संबंधित स्पष्टीकरण विवरण सहित सूचना तथा ३१ मार्च, २०१८ को समाप्त अवधि की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को जिनके ई मेल एडेस कंपनी / डिपोजट्री पाट्रीसिपेंट द्वारा पंजीकृत है, को इलेक्ट्रोनिक मध्यम का उपयोग कर भेजी गई है। आम वार्षिक बैठक तथा संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट की सुबना की मूल प्रति उन सदस्यों को जिनका ई मेल एडेस पंजीकृत नहीं है, उन्हें अनुमति सहित उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है। संक्षिप्त तथा पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक की सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाईट (www.goodyear.co.in) पर "इन्वेस्टर रिलेशन्स" सेक्शन पर भी उपलब्ध है। आम वार्षिक बैठक की सूचना एव वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करने का काम 10 जुलाई, 2018 को कर लिया गया है। इस

- एजीएम की सूचना में उल्लेखित व्यवसाय इलेक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान द्वारा सम्पादित
- आम वार्षिक स्थल पर वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों का निर्धारण की अंतिम तारीख बुधवार, 1 अगरत, 2018 है। अंतिम तारीख तक फिजिकल और डिमैट रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य आम बैठक के स्थान के अलावा राष्ट्रीय प्रतिभृति डिपोजटी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली यानि https://www.evoting.nsdl.com के माध्यम से इलेक्टोनिक रूप से अपना वोट डाल सकते है. ("रिमोट ई-वोटिंग") या मतपत्र के
- रिमोट ई—वोटिंगः रविवार, 5 अगस्त, 2018, प्रातः 9:30 बजे से शुरू होगी और मंगलवार, 7 अगस्त, 2018, सायं: 5:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा मंगलवार, 7 अगस्त 2018, सायं: 5:00 के बाद एनएसडीएल द्वारा अक्षम कर दिया जायेगा और इस तारीख और समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी और एक बार यदि सदस्य ने प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना वोट डाल दिया तो इसके बाद इसे बदलने की अनुमति उसे नहीं दी जाएगी; किसी भी व्यक्ति, जो सचना प्रसारण के बाद तथा कट ऑफ तारीख (यानि बुधवार,

अगस्त, 2018) तक कंपनी का शेयर धारित करता हो या सदस्य बना हो वह कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट या एनएसडीएल से निम्नलिखित नंबर और ई-मेल आईडी पर संपर्क कर ई-वोटिंग के लिए अपना यूजर आई-डी और पासवर्ड ले सकते हैं: आरटीए फोन नं 91 11 26812682-83, 64732681, ई-मेल आईडी: admin@skylinerta.com

एनएसडीएल-फोन नं 91 22-24996400/24994738, टोल फ्री नं 1800 222 990, ई—मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in

आम बैठक स्थल पर मतदान की सुविधा बैलट पेपर द्वारा प्रदान की जायेगी;

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिये वोटिंग के अधिकार का उपयोग करने के बाद भी आम वार्षिक बैठक में भाग ले सकता है लेकिन उसे दोबारा आम वार्षिक बैठक में वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी

रिकोर्डेड हो या डिपोजिरियों द्वारा रखे गये लाभ प्राप्तकर्ता स्वामियों के रजिस्टर में शामिल हो. आम वार्षिक बैठक में रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ बैलेट पेपर के जरिये वोट देने किसी प्रकार की पूछताछ के मामले में सदस्य "सदस्यों से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा

अंतिम तिथि की स्थिति के अनुसार वह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में

सदस्यों के लिए ई-वोटिंग युजर मैनुअल" देख सकते हैं। यह www.evoting.nsdl.com पर "डाउनलोड्स" सेक्शन पर उपलब्ध है। ई-वोटिंग के बारे में शिकायत संबंधी कोई अन्य जानकारी के लिए सदस्य टॉल फ्री नं 1800222990 पर कॉल कर सकते हैं अथवा मिस पल्लवी माहन्ने, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल ट्रेंड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 से निर्धारित ई-मेल आई डी evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in अथवा टेलीफोन नं 022-24994545 / 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं।

सदरयों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स लाभांश के भूगतान तथा आम वार्षिक बैठक के प्रयोजन मे बृहस्पतिवार 2 अगस्त, 2018 से बुधवार 8 अगस्त, 2018 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगी । लाभांश, यदि आम वार्षिक बैठक में घोषित किया जाता है, का भूगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनमें नाम 1 अगस्त, 2018 की

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालनार्थ तथा हरित प्रयासों के भाग के रूप में कंपनी अपने सदस्यों को अपने ई-र्मल पते प्रदान करने/अपडेट करने के लिए प्रेरित करती है ताकि सूचना / दस्तावेज / वार्षिक रिपोर्टे इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान किए जा सकें। सदस्यों को अपने ECS । NEFT रजिस्टर करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है ताकि भविष्य में उनका लाभांश सीधा उनके बैंक खातों में क्रेडिट किया जा सके। जिन सदस्यों ने अपने शेयर को भोतिक रूप में रखा हैं उनके दस्तायेज़ के नवीनीकरण संबंधी सभी आग्रह को कंपनी या आरटीए को भेजे एवं जिन सदस्यों ने शेयर को डीमैटिरियलाइञ्ड रूप में रखा हैं उन्हे आग्रह अपने डिपोज़िटरी प्रतिभागी को भेजें।

कृते गुडईयर इंडिया लिमिटेड

दिनांकः 10 जुलाई, 2018 स्थानः नई दिल्ली

पंकज गुप्ता (कंपनी सचिव)

DFM FOODS LTD.

CIN; L15311DL1993PLC052624 पंजीकृत कार्यालयः 8377, रोशनआरा रोड, दिल्ली–110007 फोन नं.: 011—23826445; फैक्स नं.: 011—23822409 ईमेल: dfm@dfmgroup.in वेबसाइट: www.dfmfoods.com

सूचना दी जाती है कि दिनांक 25 मई, 2018 की सूचना में उल्लिखित कामकाज करने के लिए एयर फोर्स सभागार, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली–110010 मे सोमवार, 6 अगस्त, 2018 को पूर्वाह 10.00 बजे से कंपनी की 25वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) आयोजित की जाएगी। एजीएम सहित वार्षिक रिपोर्ट 2017–18, उपस्थिति स्लिप तथा प्रॉक्सी फॉर्म की प्रति इस नोटिस के साथ सभी सदस्यों को कंपनी में दर्ज उनके पते / ईमेल आइडी पर दिनांक 10 जुलाई, 2018 को या उसके पूर्व भेज दी गई है। इस नोटिस को कंपनी ने अपनी वेबसाईट www.dfmfoods.com पर भी अपलोड कर दिया है। एजीएम की यह सूचना सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

बैठक में शमिल होने व वोटिंग के लिए अधिकृत सदस्य स्वयं के बदले शामिल होने व वोट करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त कर सकते हैं तथा प्रॉक्सी को कंपनी के एक सदस्य होनें की जरूरत नहीं है। प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रारूप के अनुसार भरकर एवं हस्ताक्षर के साथ बैठक शुरू होने के कम–से–कम 48 घंटे पहले जमा कराना आवश्यक है।

यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 91(1) के अनुसरण में सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण बहियां उपर्युक्त एजीएम और लाभांश का भुगतान, अगर एजीएम में घोषित किया जाता है, के लिए 21 जुलाई, 2018 से 6 अगस्त, 2018 (दोनों दिनों को शामिल करके) बंद रहेंगे। वे सदस्य, जिनके नाम 20 जुलाई, 2018 को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज हैं, उनको लाभांश देय होगा और अभौतिक रूप में रखे गए इक्विटी शेयरों के संबंध में, लाभांश का भूगतान उन सदस्यों को किया जाएगा. जिनके नाम उक्त तिथि पर NSDL और CDSL द्वारा लाभार्थी के रूप में

यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के समय-समय पर संशोधन के अनुसार, सेबी के अधिनियम 44 (दायित्व सूचिकरण व प्रगटीकरण संबंधी अर्हताएँ) नियम, 2015 व भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी साचिविक मानकों के अनुसरण में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में उल्लिखित सभी संकल्पों पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के जरिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान कर

निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग प्रक्रिया को पुरा करने के लिए मैसर्स प्रदीप देबनाथ एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के श्री प्रदीप देबनाथ (FCS-6654) को छानबीनकर्ता (स्क्रिटिनाइजर) के रूप में नियुक्त किया है।

टिप्पणियाँ (a) दिनांक 25 मई, 2018 को प्रस्तावित 25वी एजीएम की सूचना के अनुसार कंपनी इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा सदस्यों को अपने वोट डालर्ने हेतु रिमोर्ट ई-वोटिग

की सुविधा प्रदान कर रही है। (b) रिमोट ई—वोटिंग शुरू होने : शुक्रवार 3 अगस्त, 2018 (पूर्वाह 10:00 बजे) की तारीख और समय

(c) रिमोट ई—वोटिंग समाप्त होने : रविवार 5 अगस्त, 2018, (अपराह 5:00 बजे) की तारीख और समय

(d) कट ऑफ तिथि : सोमवार 30 जुलाई, 2018

(e) कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता

है और सदस्य बनता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् 30 जुलाई, 2018 को शेयर

अपने पास रखता है, वो CDSL के helpdesk.evoting@cdslindia.com या RTA के admin@mcsregistrars.com पर अपना अनुरोध भेजकर लॉग इन आई–डी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। (f) मतदान पत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपस्थित उन सदस्यों को दी

जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोटिंग नहीं किया है। (g) कृपया सदस्य यह भी नोट करें कि-

(i) 5 अगस्त, 2018 को अपराह 5:00 बजे के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं

(ii) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिये अपना वोट डालने के बाद भी साधारण बैठक में भाग ले सकता है मगर उसे बैठक में दुबारा वोट देने की अनुमति

(iii) जिस सदस्य का नाम सदस्यों के रजिस्टर या कट ऑफ तिथि पर डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग करने और वार्षिक साधारण बैठक में मतदान करने की

सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे। (h) बैठक की सूचना www.dfmfoods.com और www.evotingindia.com पर

भी प्रदर्शित की गई है। (i) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान की सुविधा से संबंधित शिकायतों का निबटारा

करने के लिए कृपया संपर्क करें: श्री राज् सिंह तोमर, कंपनी सचिव, ईमेल आईडी: raju.tomer@dfmgroup.in या arjun.sahu@dfmgroup.in, टेलीफोन नंबर: 011-23826445. पता: 8377, रोशनआरा रोड, दिल्ली-110007

(j) एजीएम बैलट के ई—वोटिंग / वोटिंग का परिणाम 7 अगस्त, 2018 को या उससे पूर्व घोषित किया जाएगा। छानबीनकर्ता की रिपोर्ट के परिणामों को कंपनी के पेंजीकृत कार्यालय, कंपनी की वेबसाइट पर पंजीकृत की जाएगी तथा उन स्टॉक एक्सचैंजो पर भी उपलब्ध होंगी जहाँ कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं।

बोर्ड के आदेश द्वारा कृते डीएफएम फूड्स लिमिटेड

हस्ता./-राजू सिंह तोमर कंपनी सचिव

अपनी पत्नी कुलसूम नवाज की देखभाल कर रहे हैं, जो गले के

स्थान : नौएडा (उत्तर प्रदेश) दिनांक : 10 जुलाई 2018

त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड

जिम्मेदारी ली है।

पीड़ित गंभीर रूप से झुलसे थे।

पंजीकृत कार्यालय : ए-44 हौजरी कॉम्प्लेक्स, फेज-॥ एक्सटेंशन, गौतम बुद्ध नगर, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201305 कॉर्पोरेट कार्यालय : 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेंड टॉवर्स 15-16, सेक्टर 16 ए, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201301 दूरमाष : 91 120 4308000 / फैक्स : 91 120 4311010-11 ई-मेल shares.ttl@trivenigroup.com Website:www.triveniturbines.com

कम्पनी परुचान संख्या : L29110UP1995PLC041834 अंशघारकों हेतु सूचना समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 124 (6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016, यथा संशोधित, (आईइपीएफ नियम), के अनुपालन में ऐसे सभी अंश जिनके सम्बन्ध में सात या उससे अधिक वर्षों से लाभांश का दावा अथवा भुगतान नही किया गया है, कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) के पक्ष में हस्तांतरण हेतु वांछित हैं।

आईइपीएफ नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने सम्बंधित अंशधारकों को, जिनके वित्तिय वर्ष 2011-12 के अन्तरिम लामांश का दावा नहीं किया / अदत्त हैं तथा जिनके अंश आईइपीएफ को हस्तांतरित किये जाने हैं, आवश्यक सूचना प्रेषित की है। कथित अंशधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.triveniturbines.com पर 'Investors' अनुभाग के अंतर्गत अपलोड किया गया है। अंशधारक आईइपीएफ को हस्तारित होने हेतु संभाव्य अंशों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

सम्बंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वर्ष 2011-12 के अन्तरिम एवं उसके उपरान्त के अपने अदत्त लाभांश का दावा करने हेतु अपना आवेदन कम्पनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात अलंकित असाइनमैन्टस लिमिटेड (यूनिट त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड) को अलंकित हाईट्स, १ई/१३ झन्डेवालान एक्सटैनशन, नई दिल्ली-110055 अथवा ईमेल द्वारा rta@alankit.com पर कर सकते हैं। यदि अदत्त लाभांश का वैद्य दावा अलंकित असाइनमैन्टस लिमिटेड को 25 अक्टूबर, 2018 को या उससे पूर्व प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी आईईपीएफ नियमों के अंतर्गेत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कथित अंशो को आईईपीएफ में हस्तांतरित कर देगी।

अंशघारक कृपया घ्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित अंशो को उपार्जित लाभों सहित, यदि कोई हो, आईईपीएफ प्राधिकरण से आईईपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंशधारको द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।

इस संदर्भ में यदि अंशघारकों का कोई प्रश्न हो तो वे अलंकित असाइनमैन्टस लिमिटेड (युनिट त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड) अलंकित हाईट्स, १ई / १३ झन्डेवालान एक्सटैनशन, नई दिल्ली-110055 अथवा टेलीफोन नं. 011-42541234, 23451234, फैक्स नं. 011-41543474, ईमेल द्वारा rta@alankit.com पर संपर्क कर सकते हैं।

> कृते त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड हस्ताक्षर (राजीव साहनी)

कम्पनी सचिवं M. No. ACS 8047

DIN-06731853 DIN-00898469

Adfactors 158

स्थान : दिल्ली

तारीखः 10 जुलाई, 2018

SHOPPERS STOP

गॉपर्स स्टॉप लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: उमंग टॉवर, ५ वा मजला, माईंडस्पेस, ऑफ लिंक रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई-४०० ०६४. द्र.: ०२२-४२४९७००० ; ई-मेल: investor@shoppersstop.com संकेतस्थळ: www.shoppersstop.com सीआयएन : एल५१९००एमएच१९९७पीएलसी१०८७९८

सूचना

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेम्युलेशन २९ आणि ४७ अन्वये याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या संचालक मंडळाची सभा दिनांक ३० जुन, २०१८ रोजी संपलेल्या पहिल्या तिमाहीसाठी कंपनीच्या अलेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्षांना इतर बाबींसह विचारात आणि मंजूर करण्यासाठी शुक्रवार, २७ जुलै २०१८ रोजी घेण्यात येणार आहे. सदर सूचना ही कंपनीचे संकेतस्थळ www.shoppersstop.com आणि स्टॉक एक्स्चेंजसचे संकेतस्थळ www.bseindia.com आणि www.nseindia.com

> शॉपर्सस्टॉप लिमिटेडकरिता भरत सांघवी

> > ...Applicant

दिनांक: १० जुलै, २०१८ कंपनी सचिव

District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (3) Competent Authority under section 5A of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963, MHADA Building, Ground Floor, Room No. 69, Bandra(E), Mumbai 400 051

Public Notice in Form XIII of MOF A (Rule 11(9) (e)) Before the Competent Authority Application No. 62 of 2018 SULOCHANA HOUSING SOCIETY LIMITED

Yashawant Nagar, Vakola, Santacruz (E), Mumbai - 400 055

1. K.K. KRISHNAN CONSTRUCTION CO. PVT. LTD.

- Sujata Shopping Center, Manipada Village Road, Kalina,
- Santacruz (East), Mumbai 400 050 2. SHRI. JERVIS CVRIL RODRIGUES.

यावरही उपलब्ध असणार आहे.

ठिकाण: मुंबई

- and her/their legal heirs Jersal, D'Monte Park Road,
- Bandra (West), Mumbai 400 050. 3. SHRI. NEREUS MANUEL RODRIGUES
- and her/their legal heirs St. Andrew's Church, Bandra (W), Mumbai 400 050 4. SHRI. REV FATHER. HILARY MANUEL RODRIGUES
- and her/their legal heirs St. Joseph Church, Juhu, Mumbai 400 049
- 5. SMT. LOUIE HUBURT D'SILVA
- and her/their legal heirs St. Annette, St Pauls Road,
- Bandra (West), Mumbai 400 050 5. SHRI. SUNIL S. RODRIGUES
- and her/their legal heirs Sun-AN-VIN, 20, St. Domnic Road,
- Bandra (West), Mumbai 400 050 7. MS. CLETA MANUEL RODRIGUES
- and her/their legal heirs Sameer, Perry Road, Bandra (W), Mumbai 400 050 8. SMT. CALERA MANUEL RODRIGUES
- and her/their legal heirs Sameer, Perry Road, Bandra (W), Mumbai 400 050
- 9. SMT. ASHALATA GANPATRANE (Deceased)
- and her/their legal heirs (O.P. 10 & 11 are all Legal hairs of smt. Ashalata Ganpat Rane and if any)
- O. MR. PRAVIN GANPAT RANE
- flat No. 204, Sainath CHS Vakola Police Station Road, Vakola,
- Santacruz (E), Mumbai 400 055. 11. MR. SATISH GANPAT RANE
- flat No.303, Sainath CHS Vakola Police Station Road, vakola, Santacruz (E), Mumbai - 400055.

PUBLIC NOTICE

 Take the notice that the above application has been filed by the applicant under section 11 under the Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the Promotion of Construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963 and under the applicable Rules against the Opponents above mentioned.

2) The applicant has prayed for grant of conveyance of land admeasuring about 2018.80 square meters bearing C.T.S. No 3330, 3423, 3424 admeasuring 2018.80 Sq Mtr., (As per approved Plan) ans as per latest Property Card C.T.S No 3330B. 3423-A, 3423-C, 3424 situated at Kolekalyan Sanatacruz (East), Taluka: Bandra. Division Andheri, along with structure comprises of 3 (Three) wings A, B,C. (A wing Stilt + 7 floor, 28 flat, B Wing Ground + 3 floor 4 flats and C wing Ground + 3 floors 14 flats = Total 46 flats) in Mumbai suburban District of Mumbai in favour of the Applicant Society.

3) The hearing in the above case has been fixed on 19.07.2018 at 3.00 p.m.

4) The Promoter / Opponent / s and their legal heirs if any, or any person / authority wishing to submit any objection, should appear in person or through theauthorized representative on 19.07.2018 at 3.00 p.m. before the undersigned together with any documents, he / she / they want/s to produce in support of his / her objection / claim / demand against the above case and the applicant/s is / are advised to be present at that time to collect the written reply, if any filed by the interested parties.

5) If any person/s interested, fails to appear or file written reply as required by this notice, the question at issue / application will be decided in their absence and such person / s will have no claim, object or demand whatsoever against the property for which the conveyance / declaration / order is granted or the direction for registration of the society is granted to the applicants or any order / certificate / judgment is passed against such interested parties and the matter will be heard and decided ex-parte. By Order, for District Deputy Registrar,

> Co-operative Societies, Mumbai City (3), Competent Authority u/s 5A of the MOFA, 1963.

YES BANK

नेहरु सेंटर, 9वा मजला, डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया, डॉ. ए. बी. रोड, वरळी, मुंबई-400 018, भारत. फोन: +91(22) 3366 9000 फॅक्स: +91(22) 2490 0314 ईमेल: shareholders@yesbank.in, वेबसाइट: www.yesbank.in, CIN: L65190MH2003PLC143249

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, 2015 च्या नियम 29 आणि नियम 47 चे पालन करताना सूचित करण्यात येत आहे की, अंतर्गत कामकाज या विषयाखाली येस बँक लिमिटेड ('बँक') च्या संचालक मंडळाची बैठक मुंबई येथे गुरुवार, 26 जुलै, 2018 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे, ज्यात 30 जून, 2018 रोजी समाप्त झालेल्या तिमाहीसाठी बँकेचे अलेखापरिक्षित आर्थिक निकाल विचारात घेतले जातील आणि मान्य केले जातील.

याशिवाय, सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इन्सायडर ट्रेडिंग) रेग्युलेशन्स, 2015 आणि इन्सायडर ट्रेडिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी बँकेने घालून दिलेल्या कोड ऑफ कंडक्टचे पालन करण्याचा भाग म्हणून बँकेचे आणि उप कंपन्यांचे पदनियुक्त कर्मचारी, संचालक, प्रोमोटर आणि त्यांचे जवळचे नातेवाईक आणि बँकेशी जोडलेले व्यक्ती यांच्यासाठी ट्रेडिंग विंडो 28 जुलै, 2018 पर्यंत बंद ठेवण्यात येईल आणि त्यामुळे त्यांना 28 जुलै, 2018 पर्यंत बँकेच्या सिक्युरिटीजमध्ये व्यवहार करण्याची परवानगी मिळणार नाही.

सदर सूचना बँकेच्या वेबसाइट https://www.yesbank.in आणि स्टॉक एक्स्चेंजच्या वेबसाइट https://www.bseindia.com आणि https://www.nseindia.com वर पाहता येईल.

दिनांकः 9 जुलै, 2018 स्थळः मुंबई

येस बँक लिमिटेडसाठी सही/-शिवानंद आर. शेट्टीगर कंपनी सचिव

POST OFFER ADVERTISEMENT IN TERMS OF REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011")WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC EQUITY SHAREHOLDERS OF

YKM INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 4, Jayalakshmipuram, First Street, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu, 600034; Tel No: 044-42113810, 42113820; Fax No: 044-28212494; Email id: ykmindustrieslimited@gmail.com CIN: L05001TN1994PLC028263 (Hereinafter referred to as the "Target Company" or "YKM")

Open Offer to the public equity shareholders of YKM for acquisition of 11,67,374 Equity Shares of Face Value ₹10/- each of YKM representing 26.00% of total fully paid up equity share capital ("voting share capital") of Target company for cash, at price of ₹13/- (Indian Rupees Thirteen only) per equity share by Mr. Anil Jain ("Acquirer 1"), Mrs. Dimple Jain ("Acquirer 2"), Mrs. Ugam Devi Jain ("Acquirer3"), Sherisha Technologies Private Limited ("STPL") ("Acquirer 4") and Mr. Tarachand Jain "Person acting in Concert" / "PAC") ("Hereinafter referred to as Acquirers & PAC") under SEBI (SAST) Regulations, 2011

This Post Offer Advertisement is being issued by Keynote Corporate Services Limited ("Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirers & PAC in connection with the offer made in compliance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Post Offer Advertisement has to be read with Public Announcement issued on April 11, 2018 ("PA"), the Detailed Public Statement dated April 17, 2018 ("DPS") and Letter of Offer dated June 01, 2018 ("LOF") dispatched to the public shareholders on June 06, 2018. The DPS with respect to the aforementioned Offer was published in Business Standard (all editions) - English National Daily, Business Standard (all editions) - Hindi National Daily, Navshakti (Mumbai edition) - Marathi Regional Daily (regional language daily where the place of the stock exchange is situated) and Makkal Kural (Chennai Edition) - Tamil Regional Daily (regional language daily where registered office of the Target Company is situated).

Name of the Target Company

Name of Manager to the Offer

4. Name of Registrar to the Offer

Date of opening of the Offer

6. Date of Payment of Consideration

b. Date of closing of the Offer

7. Details of Acquisition

Offer Details

2. Name of the Acquirers & PAC

YKM Industries Limited.

- Mr. Anil Jain ("Acquirer 1")
- Mrs. Dimple Jain ("Acquirer 2") Mrs. Ugam Devi Jain ("Acquirer 3")
- Sherisha Technologies Private Limited ("Acquirer 4").

Mr. Tarachand Jain

Keynote Corporate Services Limited. Cameo Corporate Services Limited.

Wednesday, June 13, 2018. Tuesday, June 26, 2018. Friday, July 06, 2018.

Sr. No.	Particulars	Offer Document	Actual
7.1	Offer Price (₹)	13/-	13/-
7.2	Aggregate Number of Shares Tendered	11,67,374	10,97,710
7.3	Aggregate Number of Shares Accepted	11,67,374	10,97,210
7.4	Size of Offer (Number of Shares multiplied by offer price of shares) (₹)	1,51,75,862/-	1,42,63,730
7.5	Shareholding of the Acquirers & PAC before Agreements/Public Announcement (No. & %)	Nil	Nil

Sr. No.	Particulars	1000 March	sed in the locument	Actual	
8. 11		Number	% of Total Equity Share Capital	Number	% of Total Equity Share Capital
7.6	Shares Acquired by way of Agreements	28,76,880	64.07	28,76,880	64.07
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer	11,67,374	26.00	10,97,210	24.44
7.8	Shares Acquired after Detailed Public Statement	0	0.00	0	0.00
7.9	Post offer share holding of Acquirers & PAC	40,44,254	90.07	39,74,090	88.51
7.10	Pre offer shareholding of the Public	16,13,020	35.93	16,13,020	35.93
7.11	Post offer shareholding of the Public	4,45,646	9.93	5,15,810	11.49

for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Sharesand Takeovers), 2011. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Ltd and at the registered office

8. The Acquirers & PAC accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS & PAC KEYNOTE

Keynote Corporate Services Limited

The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400028. Tel: +91-22- 30266000-3; Fax: +91-22- 3026 6088; E-mail:mbd@keynoteindia.net Contact Person: Ms. Pooja Sanghvi; Website: www.keynoteindia.net SEBI Registration No.: INM 000003606; CIN: L67120MH1993PLC072407

Place: Mumbai Date: July 10, 2018

नोटीस

मी, श्रीमती गीता रमेश बोरीचा पत्ता-खोली नं. १५, इमारत क्र. ६, विंग-क, तिसरा मजला, मुगशीर्ष ना. नि. प. सह. गृह. नि. सं. मर्या., प्लॉट नं. ५-१, जन. के. वैद्य रोड, गोरेगाव (प्), मुंबई-४०००६५. उपरोक्त सदनिका विक्रीस ठरवली आहे. सदर सदनिका मागासवर्गीय कोट्यात्न मिळाली असून योग्य मागासवर्गीय जाहिरात दिलेल्या कागदपत्रासह तारखेपासून ७ दिवसांच्या आत संपर्क साधावा.

PUBLIC NOTICE

Notice is here by given that Smt. GULLI R. LALWANI was the owner of Flat No. 32, adm. 425 sq.ft. on, 3rd Floor, Bldg No. 8 of VERSOVA VIEW CO-OP. HSG SOC. LTD. (Regd. No. BOM/HSG/2848 OF 1971) holding Share Certificate No. 112 & Duplicate Share Certificate No. 315 of Rs. 50/-Share bearing No. 556-560 Share Certificate issued on 30-03-1972 standing on CTS No. 1353 of Versova Village Taluka Andheri M.S.D. (hereinafter called the said Flat) Smt. GULLI R. LALWANI was sold the said Flat to Shri. AHUJA CHATRU CHHUGOMAL vide Agrement dt. 29.03.1997 & Allotment letter lost & misplaced Shri. AHUJA CHARU CHHUGOMAL sold the said Flat to 1) Smt. ZEHRA Y. BHOJABHAI 2) Shri. YOUSUFALI HUSSAINBHAI vide Agreement dt. 03.06.1986 1) Smt. ZEHRA Y. BHOJABHAI Shri. YOUSUFALI HUSSAINBHAI sold the said Flat to Shri. ASAHDULLA M. SAYED vide Agreement dt. 31.01.2000

Any person having any claim by way of Sale, transfer, mortgage, gift, exchange, tenancy, possession whatsoever nature shall make it known to undersigned in writing within 7 days from Publication of Notice with authentic Documentary evidence failing which the Title Clearance Certificate will be issued.

Mumbai

July 10, 2018

NISHA A. AGARWAL Advocate, High Court, 301, Habib Park, Opp. Jogeshwari Rly Stn. (W), Mumbai - 400 102

RELIANCE

Wealth Sets You Free

RELIANCE NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LIMITED

(CIN - L65910MH1995PLC220793)

Registered Office: Reliance Centre, 7th Floor, South Wing, Off Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbai - 400 055. Tel No. +91 022 3303 1000 • Fax No. +91 022 3303 7662 • www.reliancemutual.com

NOTICE NO. 55 DIVIDEND DECLARATION

Record Date July 16, 2018

Notice is hereby given that the Trustee of Reliance Mutual Fund ("RMF") has approved declaration of dividend on the face value of Rs.10/- per unit in the undernoted Scheme of RMF, with July 16, 2018 as the record date:

Name of the Scheme	Dividend (₹ per unit)*	NAV as on July 09, 2018 (₹ per unit)
Reliance Equity Hybrid Fund - Dividend Plan - Monthly Dividend Option		10.7848
Reliance Equity Hybrid Fund - Direct Plan - Dividend Plan – Monthly Dividend Option	0.1000	11.1364

*As reduced by the amount of applicable statutory levy. Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Scheme will fall to the extent of payout, and

statutory levy, if any. The dividend payout will be to the extent of above mentioned dividend per unit or to the extent of available distributable surplus, as on the Record Date mentioned above, whichever is lower.

For units in demat form: Dividend will be paid to those Unitholders/Beneficial Owners whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories under dividend option of the Scheme as on record date. All unit holders under the Dividend Option of the above mentioned scheme, whose names appear on the register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the dividend.

For RELIANCE NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LIMITED

(Asset Management Company for RELIANCE MUTUAL FUND)

Authorised Signatory

Make even idle money work! Invest in Mutual Funds

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



जाहीर सूचना

नोंदणीकृत कार्यालय: लॅन्डमार्क, रेस कोर्स सर्कल, बडोदा ३९० ००७. नियम कार्यालय : आयसीआयसीआय बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई-४०० ०५१.

सोने लिलावासह आमंत्रण सचना

आपसीआपसीआव बैंक लिपिटेड (आपसीआपसीआप बैंक) यांच्याकडून खालील नमूट कर्जटारांनी सोन्याच्या दाणिन्यांचर प्राप्त करण्यात आलेल्या सुविधांसंबंधी । त्यांच्या धकीत रक्रमेचा धरणा इरण्यास सूचना निर्गमित करण्यात येत आहे. सुविधेअंतर्गत कर्जदार त्यांच्या वकीत रकमेचा भरणा करण्यास कस्रुवार ठरल्याने आग्ही, २० <mark>जुलै, २०१८</mark> रोजी ताबेगहाण असलेल्या सोन्याच्या दाणिन्यांचा लिलाव करण्यास भाग आहोत. अशा परिस्थितीत सदर. लिलाचातून कोणतीही अतिरिक्त रूकम प्राप्त झल्यास संबंधित कर्तदारांस पत्र केली जाईल आणि लिलावापूर्वी कोणतेही नुकसान हाल्यास उरतेली रक्कम सदर कर्जदारांकदून योग्य कायदेशीर कार्यवाहीने वसूल करण्यात येईल. आयसीआयसीआय वैंकस खालील कोणतेही खाते पूर्वसूचना न देता कादून टाकण्याचे प्राधिकार आहेत. हुदे आपसीआवसीआव बँक लिलावाची तारीख बदलम्याचे हक्क राखून ठेवत आहेत.

कर्ज खाते क्र.	ग्राहकाचे नाव	कर्ज साते क्र.	ग्राहकाचे नाव	कर्ज खाते क्र.	ग्राहकाचे नाय
शासोचे न	ावः अकोट	६४६९०५००६११८	पद्मसिंहा कृष्णराच बरसळे	शाखेचे	नावः पैठण
१८६३०५००२३०९	काशिराम संजाजी चंदने	585504005060	दत्ता बाब्राव पवार	२०१२०५००१३३४	दीपक अण्णासाहेव आव्हाड
१८६३०५००३००६	सुधीर पुरुषोत्तम विव्हाने	शाखेचे न	ावः मालेगाव	२०१२०५००५३४०	उमेल सुभाष आल्हाट
शाखेचे नायः औरंगाबाद टिळकनगर		६४२८०५००२०२९	संत् शहाजी महाले	२०१२०५००६६२६	ज्ञानेश्वर आवासाहेव धोटे
		शाखेचे नावः	नागपूर-इतवारी		यः पिंपळगाव
	१४५५०५००२५२५ हरीय ओगप्रकाश सिसोदिया शास्त्रेचे नावः भंडारा		मितेंद्र भी कामठे		**************************************
০১৪৭০৭০০ ইইইজ	मंगेश कृत्यराव किरसागर	१४६३०५००११२५ १४६३०५००१५१५	सोन् भास्कर बाधरे	\$52000000\$	सुरेश वेंक्कप्पा मृत्या बाब: सिजर
		शास्त्रेचे नावः नांदेड-विसावानगर		-	
সাভাখ ন	वः बुटीबोरी		शिवाजी रामजी अवकेमवाड	०४९१०५००५६९२	अंकुश शिवाजी आव्हाड
888004000988	रोहित के जोशी	१४६६०५००२४७३		ज्ञासंचे	नावः उमरेड
शास्त्रेचे नाव	।: धुळे-देवपूर	\$2£200008£66	यार्षिकेत माणिकराव चिलवंत		
		शाखेचे नाव: नाशिक शरणपुर रोड		48200005806	किशोर द्वाराम देशमुख
१८६५०५००२१३९	बिरेंद्र कुमार साव	007404088888	गोकुल बदनपुल्की बिलोरे	१४६५०५००२५३८	संजय गोविंदराव तिडके
	ाबः गाँदिया			शाखेचे नाव: वाणी	
<i>ব্রুত</i> র্ভার ১৮০১ বিরু	तिलाधर बी पाटले	005/30/05/250/	पवन उत्तमराव निकम		
शास्त्रेचे नाव:हिंगोली		शाखेचे नाव:निलंगा		094604004795	अब्दुल नदीम अब्दुल गफार
०९५२०५००५३८८	मुकंद वापुसाहेव पवार	२०१४०५००३२५८	नितिन मुभाष पाटील	शाखेचे	नायः यथां
	ायः जालना	२०१४०५००६३९२	मधुकर मास्ती गायकवाड	\$06004003048	दिपक चिठ्ठल शेळके

आणि लिलाबात सहभागी होण्याकरिता नोंदणीकृत करण्यास इच्छूक छोदीदार बेबसाईट/टस वा लिलाब पोर्टल/ल्स वा बेंकेशी संपर्क साथ् शकतात. कृपया नोंद ध्याची सदर तारखेस वेळेअभावी लिलाच पूर्ण न झाल्याम. ट्सन्या दिवशी त्याच अटी आणि शतींचर घेण्यात येईल. ग्राहकरचे निधन झाल्यास लिलाजाच्या सर्च अटी आणि शर्ती त्यांचे कायदेशीर चारस यांना लागू होतील.

विनांक : ११.०७.२०१८ ठिकाण : अकोला, औरंगाबाद (एमएएस) भंडारा, धुळे, गोंदिया, हिंगोली, जालना, लानुर, नागपूर, नांदेड, नाशिक, यथां, ययतमाळ. आयसीआयसीआय बँक लिमिटेडसाठी

प्राधिकृत अधिकारी

BSE LIMITED

CIN: L67120MH2005PLC155188 Registered Office: 25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001, India. Tel. No.: +91 22 2272 1233 / 34, Fax No.: +91 22 2272 1003 E-mail: bse.shareholders@bseindia.com | Website: www.bseindia.com | Company Secretary & Compliance Officer: Smt. Prajakta Powle

POST BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF BSE LIMITED

This post-Buyback public advertisement is being made in accordance with Regulation 19(7) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998, for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time ("Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback (defined hereinafter).

This post-Buyback public advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement dated January 22, 2018 ("Public Announcement"), issued in connection with the Buyback. Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement.

THE BUYBACK

- 1.1 Pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70 and all other applicable provisions, of the Companies Act, 2013, as amended ("Act") and applicable rules thereunder, the provisions of the Buyback Regulations, and Article 23 of the Articles of Association of BSE Limited (the "Company"), and pursuant to the resolutions passed by the Board of Directors of the Company (the Board of Directors of the Company are hereinafter referred to as the "Board" or the "Board of Directors") at their meeting held on January 15, 2018 (the "Board Meeting"), the Board approved the Buyback of the Company's fully paid-up equity shares of the face value of ₹ 2 (Rupees Two Only) (the "Equity Shares") each from its shareholders/ beneficial owners, from the open market through stock exchange mechanism i.e., using the electronic trading facilities of the National Stock Exchange of India Limited ("Stock Exchange"), where the Equity Shares are listed, for a total amount not exceeding ₹ 166.00 crore (Rupees One Hundred Sixty Six Crore only) (the "Maximum Buyback Size"), and at a price not exceeding ₹ 1,100/- (Rupees One Thousand One Hundred Only) per Equity Share (the "Maximum Buyback Price"), payable in cash (the process being referred hereinafter as "Buyback"). The Maximum Buyback Size and Maximum Buyback Price do not include brokerage costs, fees, turnover charges, taxes such as securities transaction tax and goods and service tax (if any), stamp duty and other transaction charges (collectively referred to as "Transaction Costs").
- The Buyback commenced on February 1, 2018 and closed on July 9, 2018. Till the date of closure of Buyback, the Company has utilized 99.9999% of Maximum Buyback Size (excluding Transaction Costs) authorised for the Buyback with a balance of
- The Company decided to close the Buyback with effect from July 9, 2018. Intimation for closure of the Buyback was issued to the Stock Exchange on July 9, 2018.
- 1.4 The total number of shares bought back under the Buyback is 20,19,170 Equity Shares.
 - DETAILS OF THE BUYBACK
- 2.1 The Company bought back an aggregate of 20,19,170 Equity Shares, utilizing a total of ₹ 1,65,99,99,065.61 (Rupees One) Hundred Sixty Five Crore Ninety Nine Lakh Ninety Nine Thousand Sixty Five and Sixty One paise only) (excluding Transaction Costs), which represents 99.9999% of the Maximum Buyback Size. The price at which the Equity Shares were bought back was dependent on the price quoted on the Stock Exchange. The highest price at which the Equity Shares were bought back was ₹874.82 per Equity Share while the lowest price was ₹733.93 per Equity Share. The Equity Shares were bought back at an average price of ₹ 822.12 per Equity Share. These prices are based on contract notes issued by Edelweiss Securities Limited ("Company's Broker") and exclude Transaction Costs.
- The pay-out formalities shall be completed as per the normal settlement calendar of the Stock Exchange. The Company has extinguished 18,57,600 Equity Shares till date and the Company is in the process of extinguishing the remaining 1,61,570 All Equity Shares bought back were in the demat segment from the Stock Exchange. As the Buyback was done from the open
- market through the Stock Exchange, the identity of shareholders from whom Equity Shares exceeding one per cent of the total Equity Shares was bought in the Buyback is not known. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

The capital structure of the Company as on the date of the Public Announcement and as on July 9, 2018 (post completion of the Buyback) is set forth below: **Particulars** Post completion of the Buyback* As on the date of the

	Public Announcement	as on July 9, 2018 ₹ 300,00,00,000 (150,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2/- each)	
Authorised share capital	₹ 300,00,000 (150,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2/- each)		
Issued share capital: (7,80,000 equity shares of the face value of ₹ 2/- each have been kept in abeyance on account of various regulatory reasons)	₹ 10,91,76,344 (5,45,88,172 Equity Shares of Rs. 2/- each)	₹10,51,38,004 (5,25,69,002 Equity Shares of Rs. 2/- each)	
Subscribed and fully paid-up share capital	₹ 10,76,16,344 (5,38,08,172 Equity Shares of Rs. 2/- each)	₹10,35,78,004 (5,17,89,002 Equity Shares of Rs. 2/- each)	

The Company is in the process of extinguishing the balance of 1,61,750 Equity Shares out of the total of 20,19,170 Equity Shares bought back. The post-Buyback share capital is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the 3.2 The shareholding pattern of the Company pre-Buyback as on January 12, 2018 and post-Buyback as on July 9, 2018 is set

forth below: Pre-Buyback Post completion of the Buyback[#]

Shareholder	F16-Duyback		rost completion of the buyback	
	No. of Equity Shares	% of Equity Shares	No. of Equity Shares	% of Equity Shares
(A) Promoter & Promoter Group	0	0.00	0	0.00
(B) Public	3,30,61,393	61.44	5,17,89,002	100.00
(C1) Shares underlying DRs	0	0.00		
(C2) Shares held by Employee Trust	0	0.00		
(C3) Trading Members and Associate of Trading Members	2,07,46,779	38.56		
(C) Non-Promoter-Non-Public (C=C1+C2+C3)	2,07,46,779	38.56		
Grand Total (A+B+C)	5,38,08,172	100.00	5,17,89,002	100.00

bought back. The post-Buyback shareholding pattern is provided assuming extinguishment of all Equity Shares bought back by the

4. MANAGER TO THE BUYBACK



Edelweiss House, Off. C.S.T. Road, Kalina, Mumbai - 400 098 Tel: +91 22 4009 4400, Fax: +91 22 4086 3610 E-mail: bse.buyback2018@edelweissfin.com

Contact Person: Siddharth Shah Investor Grievance E-mail: customerservice.mb@edelweissfin.com

Website: www.edelweissfin.com SEBI Registration Number: INM0000010650

Corporate Identity Number: L99999MH1995PLC094641

(www.nseindia.com).

Rajeshree Sabnavis

Shareholder Director

DIN-06731853

DIRECTORS' RESPONSIBILITY As per Regulation 19(1)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this post-Buyback public advertisement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For further details please refer to the Company's website (www.bseindia.com) and the website of the Stock Exchange

For and on behalf of the Board of

BSE Limited Ashishkumar Chauhan Managing Director & CEO DIN-00898469

Prajakta Powle Company Secretary & Compliance Officer Membership No-A20135

Date: July 10, 2018 Place: Mumbai

Adfactors 158